



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]  
No. 6]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 1979/पौष 13, 1900  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
प्रधिलुचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1979  
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां०कां०नि० 9(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और  
नसक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा  
(2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और  
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रधिलुचना सं०  
1/78 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जनवरी 1978 को अधिकांश  
करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्लाईवुड और  
पट्टों (बोर्ड्स) के लिए जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मव  
सं० 16 ख के अन्तर्गत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभावित है उक्त सारणी के  
स्तम्भ (3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती  
है:

परन्तु—

- (i) उक्त सारणी की क्रम सं० 1, 3 और 4 में उल्लिखित वस्तुओं  
की दशा में जिनकी वास्तविक मोटाई उक्त सारणी के स्तम्भ  
(3) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मोटाई से कम

या अधिक है उसी किसी वस्तु के टैरिफ मूल्य की उक्त सारणी  
के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मूल्य से बड़ी अनुपात होगा जो  
उस वस्तु की वास्तविक मोटाई का उक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट  
मोटाई से है;

- (ii) किसी क्षेत्रफल और मोटाई की सजावटी प्लाईवुड के लिए  
टैरिफ मूल्य बही होगा जो उसी क्षेत्रफल और मोटाई के  
वाणिज्यिक प्लाईवुड का है और इसके प्रतिरिक्त:—

- (क) यदि प्लाईवुड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में  
1.80 मीटर या उससे अधिक है तो बारह रुपए प्रति  
वर्ग मीटर;
- (ख) यदि प्लाईवुड दोनों ओर सजावटी है और उसकी  
लम्बाई 1.80 मीटर या उससे अधिक है तो बारह रुपए प्रति  
वर्ग मीटर;
- (ग) यदि प्लाईवुड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में  
1.80 मीटर से कम है तो छ रुपए प्रति वर्ग मीटर;
- (घ) यदि प्लाईवुड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई  
में 1.80 मीटर से कम है तो बारह रुपए प्रति वर्ग  
मीटर;

(iii) किसी भी मोटाई के सजावटी हाई-बोर्डों के लिए टैरिफ मुख्य वही होगा जो उसी मोटाई के सदी सतह वाले मानक हाई-बोर्डों का है और इसके अतिरिक्त—

- (क) यदि हाई-बोर्ड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.80 मीटर या उससे अधिक है तो ग्यारह रुपये प्रति वर्ग मीटर;
- (ख) यदि हाई-बोर्ड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.80 मीटर से अधिक है तो बारह रुपये प्रति वर्ग मीटर;
- (ग) यदि हाई-बोर्ड एक ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.80 मीटर से कम है तो छह रुपये प्रति वर्ग मीटर;
- (घ) यदि हाई-बोर्ड दोनों ओर से सजावटी है और लम्बाई में 1.80 मीटर से कम है तो बारह रुपये प्रति वर्ग मीटर :

परन्तु यह और कि उक्त सारणी की क्रम सं० 4 पर उल्लिखित वस्तुओं का टैरिफ मुख्य वही होगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की संबंधी प्रविष्टि में विद्युत्प्ररोधी बोर्डों के लिए चाहे उनकी मोटाई कुछ भी हो और जो प्राकृतिक रंग में सादे हैं विनिर्दिष्ट है और इसके अतिरिक्त—

- (क) ऐसे विद्युत्प्ररोधी बोर्डों की वशा में जिसका अग्र भाग शेन है छह रुपये प्रति वर्ग मीटर;
- (ख) प्वालारोधी अग्र भाग वाले बोर्डों की वशा में आठ रुपये चालीस पैसे प्रति वर्ग मीटर;
- (ग) सारा उच्चतम की वशा में चार रुपये अस्सी पैसे प्रति वर्ग मीटर; और
- (घ) बुध्बुद्ध या वर्गीकार उच्चतम की वशा में पांच रुपये पचास पैसे प्रति वर्ग मीटर :

परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात वृद्ध-युक्त प्लाईवुड और बोर्डों तथा प्लाईवुड और बोर्डों की रही और अप-विष्टों को उनमें कतरन और सौजन्य भी सम्मिलित है लागू नहीं होगी।

#### सारणी

क्रम सं०	वर्णन	प्रति वर्ग मीटर रुपयों में टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)

#### 1. वाणिज्यिक प्लाईवुड—

- (क) जिसका क्षेत्रफल 5,625 वर्ग सेटी० 9.20 (जहाँ मोटाई 4 मिली-मीटर या उससे कम है; मीटर है)
- (ख) जिसका क्षेत्रफल 5,625 वर्ग सेटी० 10.50 (जहाँ मोटाई 4 मिली-मीटर से अधिक है; मीटर है)

#### 2. चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड जब

कि वे पट्टों और पट्टियों के आकार में काटी गई हों और सेटों में पैक की गई हों।

10.60

#### 3. गैर-सजावटी हाई-बोर्ड—

- (क) सादी सतह वाले हाई-बोर्ड 7.00 (जहाँ मोटाई 3 मिली-मीटर है)

1	2	3
(ख) उच्चतम हाई-बोर्ड	9.50	(जहाँ मोटाई 3 मिली-मीटर है)
(ग) तैलाक्त हाई-बोर्ड	10.80	(जहाँ मोटाई 3 मिली-मीटर है)
4. कोई भूसे, पटसन अपशिष्ट या पटसन स्टक से बने विद्युत्प्ररोधी बोर्ड/प्राकृतिक रंग के सादे।	18.00	(जहाँ मोटाई 12 मिलीमीटर है)

स्पष्टीकरण 1—वाणिज्यिक प्लाईवुड, से निम्नलिखित में भिन्न सभी किस्मों के प्लाईवुड अभिप्रेत हैं—

- (i) सजावटी प्लाईवुड,
- (ii) अग्निरोधी प्लाईवुड, ज्वालामय प्लाईवुड, संरचनात्मक प्लाईवुड, पोलीय प्लाईवुड और वायुयान प्लाईवुड;
- (iii) चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड जब कि वे पट्टों और पट्टियों के आकार में काटी गई हों और सेटों में पैक की गई हों (उक्त सारणी की क्रम सं० 2 में निर्दिष्ट)

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना में, “लम्बाई” से, उस ओर की लम्बाई अभिप्रेत है जो अधिक लम्बी हो, चाहे वह काष्ठ रेखा के समानान्तर या काष्ठ रेखा के आर पार हो या न हो।

स्पष्टीकरण 3—छिद्रित बोर्ड, चाहे वे उक्त सारणी की क्रम सं० 3 के अन्तर्गत आते हों या क्रम सं० 4 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के अधीन शुल्क से प्रभाव्य होंगे।

[सं० 8/79 सी० ई०/का० सं० 7/16/78-सी० एक्स० 1]

जी० प्रसाद, प्रवर मन्त्रि

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 1979

#### CENTRAL EXCISES

G.S.R. 9(E). -In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/78-Central Excises, dated the 2nd January, 1978, the Central Government hereby fixes for plywood and boards specified in column (2) of the Table below and chargeable with duty ad valorem under Item No. 16B of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

Provided that—

- (i) in the case of articles mentioned at Serial Nos. 1, 3 and 4 of the said Table, in respect whereof the actual thickness is less or more than that specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, the tariff value of any such article shall bear to the value specified in column (3) of the said Table, the same proportion as the actual thickness of that article bears to the thickness specified in the said column;

(ii) the tariff value of decorative plywood of any area and thickness shall be the same as that for commercial plywood of the same area and thickness, plus

(a) eleven rupees per square metre if the plywood is decorative on one side and if the length is 1.80 metres and above;

(b) twenty-two rupees per square metre if the plywood is decorative on both sides and if the length is 1.80 metres and above;

(c) six rupees per square metre if the plywood is decorative on one side and if the length is less than 1.80 metres;

(d) twelve rupees per square metre if the plywood is decorative on both sides and if the length is less than 1.80 metres;

(iii) tariff value for decorative hardboards of any thickness shall be the same as that for plain surface standard hardboards of the same thickness, plus

(a) eleven rupees per square metre if the hardboard is decorative on one side and if the length is 1.80 metres and above;

(b) twenty-two rupees per square metre if the hardboard is decorative on both sides and if the length is 1.80 metres and above;

(c) six rupees per square metre if the hardboard is decorative on one side and if the length is less than 1.80 metres;

(d) twelve rupees per square metre if the hardboard is decorative on both sides and if the length is less than 1.80 metres;

Provided further that the tariff values of articles mentioned at Serial No. 4 of the said Table shall be the same as that specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the insulation boards plain in natural colours irrespective of the thickness, plus

(a) six rupees per square metre in the case of white faced insulation boards;

(b) eight rupees and forty paise per square metre in the case of flame retardent faced boards;

(c) four rupees and eighty paise per square metre in the case of star embossing; and

(d) five rupees and fifty paise per square metre in the case of bubbles or square embossing;

Provided also that nothing contained in this notification shall apply to defective plywood and boards and rejects and wastes of plywood and boards including cuttings and trimmings.

TABLE

S. No.	Description	Tariff values in rupees per square metre
(1)	(2)	(3)
1.	Commercial plywood—	
	(a) in area of 5,625 square centimetres or less;	9.20 (where the thickness is 4 millimetres).
	(b) in area exceeding 5,625 square centimetres.	10.50 (where the thickness is 4 millimetres)
2.	Plywood for tea-chests when cut to size in panels and shocks and packed in sets.	10.60
3.	Non-decorative hardboards—	
	(a) Plain surface hardboards;	7.00 (where the thickness is 3 millimetres).
	(b) Embossed hardboards;	9.50 (Where the thickness is 3 millimetres).
	(c) Oil-tempered hardboards.	10.80 (where the thickness is 3 millimetres).
4.	Insulation boards made from bagasse, straw, jute waste or jute sticks. Plain in natural colour.	18.00 (where the thickness is 12 millimetres).

Explanation I—Commercial plywood shall mean all varieties of plywood other than—

(i) decorative plywood;

(ii) fire-proof plywood, flame-proof plywood, structural plywood, marine plywood and aircraft plywood;

(iii) Plywood for tea chests, when cut to size in panels and shocks, and packed in sets (referred to in Serial No. 2 of the said Table).

Explanation II—In this notification "length" means the length of the side whichever is longer irrespective of its being parallel to the grain or across the grain.

Explanation III—Perforated boards whether falling under Serial No. 3 or 4 of the said Table shall be charged to duty under section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 8/79-CE-F. No. 7/16/78-CX.I]

B. PROSAD, Under Secy.

